



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण 1945 (श10)

(सं० पटना 974) पटना, बुधवार, 22 नवम्बर 2023

सं०-06/नि.(साख-3) बैंक स्था.-5/11 (खण्ड-1)-3194

सहकारिता विभाग

संकल्प

7 नवम्बर 2023

विषय:- भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात(CRAR- Capital to Risk Weighted Assets Ratio) का स्तर प्राप्त करने हेतु राज्य के 02 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों यथा-भागलपुर एवं मुंगेर-जमुई को पूँजीकृत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष-2023-24 में ₹ 9433.09 लाख (नौ हजार चार सौ तैतीस लाख नौ हजार) रुपये अनुदान की स्वीकृति तथा स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्यान्तर्गत शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी समिति के रूप में गठित 23 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इन बैंकों द्वारा राज्य के कृषकों को सहकारी साख सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, अधिप्राप्ति के क्रम में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार सहकारी बैंकों का बैंकिंग लाईसेंस बरकरार रखने के लिए बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR- Capital to Risk Weighted Assets Ratio) न्यूनतम 9% रहना अनिवार्य है, अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक नियामक मापदण्डों के अन्तर्गत संबंधित बैंकों का बैंकिंग परिचालन बंद कर सकता है।

वर्तमान में 02 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको यथा भागलपुर एवं मुंगेर-जमुई को राज्य सरकार के स्तर से निम्नांकित विवरणी के अनुसार निम्नरूपेण कुल ₹ 9433.09 लाख (नौ हजार चार सौ तैतीस लाख नौ हजार) रुपये पूँजी देने की आवश्यकता है-

क्र.सं.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	पूँजी करने हेतु आवश्यक राशि (लाख रुपये में)
1.	भागलपुर	7687.91
2.	मुंगेर-जमुई	1745.18
	कुल	9433.09

उपरोक्त के आलोक में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR- Capital to Risk Weighted Assets Ratio) का स्तर प्राप्त करने हेतु राज्य के 02 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा-भागलपुर एवं मुंगेर-जमुई को पूँजीकृत करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष-2023-24 में अनुदान मद में कुल ₹ 9433.09 लाख (नौ हजार चार सौ तैतीस लाख नौ हजार) रुपये की स्वीकृति तथा स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

दिनांक-03.11.2023 को मंत्रि परिषद् की संपन्न बैठक के मद संख्या-30 में इस योजना की स्वीकृति प्राप्त है।
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 974-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>